

21/2020

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 21.12.2020 को थाना फूलपुर के उ0नि0 अरविन्द यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, तलाश वाछित अभियुक्तगण में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0-520/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह उर्फ मनीष कही भागने की फिराक में सगुनहा तिराहे पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के सगुनहा तिराहे पर पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह उपरोक्त को घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

1. अरविन्द कुमार सिंह उर्फ मनीष पुत्र मनोज कुमार निवासी UPAL कालोनी मोहनलाल गंज लखनऊ उम्र 28 वर्ष।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*

1. उ0नि0 अरविन्द यादव व का0 प्रदीप कुमार सोनी थाना फूलपुर, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

21/2020\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 21.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया परशुराम त्रिपाठी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, तालाश वांछित अभियुक्तगण में मोहन सराय तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0 532/20 धारा 420,409,120बी,411,34 IPC व 9/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अनु0 साधनो का निवारण अधिनियम 1998 व 66 आई टी एक्ट व 7क/8/9/12/13(2) भ्रष्टाचर निवारण अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-विनय कुमार सिंह पुत्र रामदुलार सिंह निवासी हरपालपुर थाना लोहता वाराणसी 2-गौरीशंकर पटेल पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी सजोई थाना जन्सा वाराणसी व 3-योगेन्द्र वर्मा पुत्र लालजी वर्मा निवासी सजोई थाना जन्सा जनपद वाराणसी तीनों करमुल्ला चौराहे पर मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहे है, यदि जल्दी करे तो पकड़े जा सकते है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर प्र0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए करीमुल्लापुर चौराहे पर पहुँचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए तीनों अभियुक्तों को समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\***

- 1 विनय कुमार सिंह पुत्र रामदुलार सिंह निवासी ग्राम हरपालपुर थाना लोहता, जनपद वाराणसी उम्र करीब 34 वर्ष।
2. योगेन्द्र वर्मा पुत्र लालजी वर्मा निवासी सजोई थाना जन्सा जनपद वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष।
3. गौरी शंकर पटेल पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी सजोई थाना जंसा वाराणसी उम्र करीब 45 वर्ष।

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1 - 25 हजार रुपये नगद गौरी शंकर पटेल उपरोक्त के पास से
- 2 - 25 हजार रुपये नगद योगेन्द्र वर्मा उपरोक्त के पास से

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

- 1- प्रभारी निरीक्षक रोहनिया-परशुराम त्रिपाठी, वरिष्ठ उ0नि0 जमीलुद्दीन खाँ, का0 अविनाश शर्मा व का0 विश्वजीत पाण्डेय थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

21/2020

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 21.12.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियों/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 77 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 1338 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 326 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 75 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 477 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया व मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 26 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-  
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 88/2020

दिनांक: दिसम्बर,

21/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड 19-महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 21-12-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 13 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये \*कुल 13 व्यक्तियों से रु0-200 जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 696 वाहनों का चालान तथा 161 वाहनों से रु0-1,28,900/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।